



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 2। नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 11, 2003 (गौष 21, 1924)
No. 2। NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 11, 2003 (PAUSA 21, 1924)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई
सरकारी आदेशों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued
by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the
Supreme Court]

मंत्रिमंडल सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 23 दिसम्बर 2002

सं० ए-19013/3/2002-प्रशं० I--राष्ट्रपति, श्री राजू
शर्मा, भ० प्र० से० (उत्तर प्रदेश : 82) को 23 दिसम्बर
2002 के पूर्वाह्न से 5 वर्षों के लिए अथवा अगले आदेशों तक,
जो भी पहले हो, राष्ट्रीय शक्तिहरण राज्यायुक्त हथियार
समझौता, मंत्रिमंडल सचिवालय में निदेशक (संयुक्त सचिव
स्तर) नियुक्त करते हैं।

सुनील मिश्र, उप सचिव

ने अपने निवर्तन आयु प्राप्ति के परिणामस्वरूप दिनांक
30-11-2002 के अपराह्न से कार्यभार छोड़ दिया है :

क्रम	नाम	पद
सं०		
श्री/श्र मति/कु०		
1.	के० के० गोस्वामी	वैज्ञानिक/इंज नियर-जी
2.	एस० एन० प्रसाद	वैज्ञानिक/इंज नियर-एस०जी

के० एस० रामचन्द्र, अवर सचिव

अन्तरिक्ष विभाग

बेंगलूर-560094, दिनांक 19 दिसम्बर 2002

सं० 5/1(2)/2002-1--अन्तरिक्ष विभाग के इसरो
उपग्रह केन्द्र बेंगलूर में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों
1-402 64/2/02

सं० 6/1(2)/2002-1-डी० एस० कृष्णाiah ने अपने
निवर्तन आयु प्राप्ति के परिणामस्वरूप अन्तरिक्ष विभाग के
अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र, अहमदाबाद में वैज्ञानिक/इंजीनियर-
एम० एफ० के पद का कार्यभार दिनांक 30-11-2002 के
अपराह्न से छोड़ दिया है।

के० एस० रामचन्द्र, अवर सचिव

सं 7/1(1)/2002-I—राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के द्रव नोदन प्रणाली केन्द्र, वलियमला, तिरुवनन्तपुरम में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों-एस० जे० के पद पर स्थापनापन्न रूप में दिनांक 1-7-2002 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं :—

श्री/श्रीमती/कु०

1. एस० जयरामन
2. एफ० पी० जोशुआ
3. ललिता रामचन्द्रन
4. एस० भागवत सिंह

के० एस० रामचन्द्र, अवर सचिव

सं 7/1(1)/2002-I—राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के द्रव नोदन प्रणाली केन्द्र, वलियमला, तिरुवनन्तपुरम में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों को प्रत्येक के सामने दिए गए पद पर स्थापनापन्न रूप में प्रत्येक के सामने दी गई तारखों के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं :—

नाम	पद जिससे पदोन्नति की गई	पद जिस पर पदोन्नति की गई	पदोन्नति की तिथि
श्री/श्रीमती/कु०			
के० सूर्य प्रकाश राव	क्रय अधिकारी	वरिष्ठ क्रय अधिकारी	20-4-02
एन० दिवाकरन नायर सहो० लेखा अधिकारी	लेखा अधिकारी	लेखा अधिकारी	3-6-02
यामस मोनी टा०	सहो० कैंटेन प्रबंधक	कैंटेन प्रबंधक-I	25-7-02

के० एन० रामचन्द्र, अवर सचिव

सं 7/1(2)/2002-I—राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के द्रव नोदन प्रणाली केन्द्र, वलियमला, तिरुवनन्तपुरम में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों-एस० सी० के पद पर अस्थायी रूप में प्रत्येक के सामने दिए गए दिनांकों के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं :—

क्रम	नाम	नियुक्ति की तिथि
------	-----	------------------

श्री श्रीमती/कु०

1. अरुण कुमार एस० एस० 31-07-2002
2. सौमिक सख्त 02-08-2002
3. सनपाला ईश्वर राव 12-08-2002
4. अभिराम नारायण 16-09-2002

के एस० रामचन्द्र, अवर सचिव

सं 7/1(2)/2002-I—अन्तरिक्ष विभाग के द्रव नोदन प्रणाली केन्द्र, वलियमला, तिरुवनन्तपुरम में निम्नलिखित अधिकारियों ने स्वीच्छिन्न रूप में निवृत्ति स्वीकार होने के परिणामस्वरूप, प्रत्येक के सामने दिए गए पदों तथा प्रत्येक के सामने दी गई तारखों के पूर्वाह्न से कार्यभार छोड़ दिया है :—

नाम	पद	कार्यभार छोड़ने की तिथि
-----	----	-------------------------

श्री/श्रीमती/कु०

- पी० मोदस्वामी असारो वैज्ञानिक/इंजिनियर— 12-8-2002
एस० ई०
- पी० मोहना प्रसाद वैज्ञानिक/इंजिनियर— 1-10-2002
जी०

के० एस० रामचन्द्र, अवर सचिव

सं 7/1(2)/2002-I—अन्तरिक्ष विभाग के द्रव नोदन प्रणाली केन्द्र, वलियमला, तिरुवनन्तपुरम में निम्नलिखित अधिकारियों ने अपना निवर्तन आयु प्राप्ति के परिणामस्वरूप प्रत्येक के सामने दी गई तारखों के अपराह्न से कार्यभार छोड़ दिया है :—

नाम	पद	कार्यमुक्ति की तिथि
-----	----	---------------------

श्री/श्रीमती/कु०

- के० पाताम्बरन व० प्रशासन अधिकारी 30-6-2002
- पी० पी० वामोदरन कैंटेन प्रबंधक-1 30-6-2002
- टा० माधवन वैज्ञानिक/इंजिनियर 31-7-2002
एस० जी०
- के० जे० पी० सी० वैज्ञानिक/इंजिनियर 31-7-2002
एस० एफ०
- के० सी० गोपालन नायर लेखा अधिकारी- 31-10-2002
- पी० व० उष्णिष्णन वैज्ञानिक/इंजिनियर- 31-10-2002
नायर एस० ई०
- के० सुकुमारन वैज्ञानिक/इंजिनियर- 30-11-2002
एस० डी०

के० एस० रामचन्द्र, अवर सचिव

दिनांक 23 दिसम्बर 2002

सं 3/1(1)2002-I—राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम में श्री व० आर० राजवृत्त, हिन्दू अधिकारी-I को हिन्दू अधिकारी-II के पद पर स्थापनापन्न रूप में दिनांक 10-10-2002 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं।

के० एस० रामचन्द्र, अवर सचिव

सं० 3/1(1)/2002-I—राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम में कु० गोमती एच० को वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० सी० के पद पर अस्थायी रूप में दिनांक 06-11-2002 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं।

के० एस० रामचन्द्र, अवर सचिव

सं० 3/1(1)/2002-I—राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम में श्री सी० एस० सी० बोस को लेखा अधिकारी के पद पर तदर्थ रूप में दिनांक 28-10-2002 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं।

के० एस० रामचन्द्र, अवर सचिव

सं० 3/1(2)/2002-I—अन्तरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम में डॉ० के० सुब्रह्मण्यन, वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० ई० ने स्वैच्छिक रूप में निवृत्ति स्वीकार होने के परिणामस्वरूप दिनांक 02-12-2002 के पूर्वाह्न से अपने पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

के० एस० रामचन्द्र, अवर सचिव

सं० 3/1(2)/2002-I—अन्तरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों ने अपने निवर्तन आयु प्राप्ति के परिणामस्वरूप प्रत्येक के सामने दिए गए पदों से दिनांक 30-11-2002 के अपराह्न से कार्यभार छोड़ दिया है :—

क्रम	नाम	पद
सं०	श्री/श्रीमती/कु०	
1.	एस० रामसुन्दर	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० जी०
2.	के० सूर्यनारायणन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० एफ०

के० एस० रामचन्द्र, अवर सचिव

सं० 3/1(2)/2002-I—राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम में श्री आयुष झा, वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० सी० का सेवा से त्यागपत्र दिनांक 25-11-2002 के अपराह्न से स्वीकार करते हैं।

के० एस० रामचन्द्र, अवर सचिव

सं० 5/1(2)/2002-I—राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के इसरो उपग्रह केन्द्र, बंगलूर में श्री एन० श्रीनिवास राव, वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० सी० का सेवा से त्यागपत्र दिनांक 05-12-2002 के अपराह्न से स्वीकार करते हैं।

के० एस० रामचन्द्र, अवर सचिव

सं० 6/1(2)/2002-I—श्री ए० सी० भावतार ने अपने निवर्तन आयु प्राप्ति के परिणामस्वरूप अन्तरिक्ष विभाग के अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र, अहमदाबाद में वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी० के पद का कार्यभार दिनांक 30-11-2002 के अपराह्न से छोड़ दिया है।

के० एस० रामचन्द्र, अवर सचिव

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 25 नवम्बर 2002

सं० ए-12022/2/2002-प्रशा० IV—वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के दिनांक 13-11-2002 के आदेश सं० 13015/1/2002-आईईएस के अनुवर्ण में भारतीय आर्थिक सेवा आईईएस के एनएफएसजी मान (स्केल) के अधिकारी श्री एस० एन० ब्रह्म चौधरी, ने 14 नवम्बर, 2002 के पूर्वाह्न से नई दिल्ली स्थित कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (योजना आयोग) में, निदेशक के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

एस० ए० रहम, अवर सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 11 दिसम्बर 2002

सं० 27011/11/98-प० एफ० II (III)—राष्ट्रपति, श्री जी० आर० बघवा, भारतीय लागत एवं लेखा सेवा, को अपना ड्यूटी निभाने के साथ-साथ आई० एफ० ए०, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के पद का संपूर्ण अतिरिक्त प्रभार संभालने के लिए 12-12-2001 से गृह मंत्रालय में उप-वित्तीय सलाहकार (पर्स) के पद पर, इस पद को नियमित आधार पर भरे जाने तक के लिए नियुक्त करते हैं।

इंदर पांडे, निदेशक (प० एफ०)

कार्मिक, लोक-शिक्षा तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 26 दिसम्बर 2002

सं० 14013/1/2000-अ० भ० से० (III)—राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवर्तन) नियमावली, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा के उत्तर प्रदेश संवर्ग के निम्नलिखित सदस्य के सामने उल्लिखित ताराख से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायी करते हैं :—

क्र० सं०	नाम	बैच	स्थायीकरण तिथि
1.	श्री महावीर यादव	1989	10-01-1998

आर० वैद्यनाथन, अवर सचिव

नई दिल्ली—110067, दिनांक 23 दिसम्बर 2002

सं० 13016/1/97-प्रशि०-I—राष्ट्रपति, श्री ए० जय कुमार मेनन, निजी सचिव, केन्द्रीय सचिवालय सेवा, वित्त मंत्रालय, कम्पनी कार्य विभाग, को सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान, नई दिल्ली में प्रहसक निदेशक (अंग्रेजी आशुतिथि एवं टंकण) के रूप में नियुक्ति के आधार पर नियुक्ति की 18-11-2002 से 17-01-2003 तक अगले दो महीने का अवधि के लिए या उनके एवजी के कार्यभार ग्रहण कर लेने तक, उनमें जो भी पहले हो, जारी रखते हैं।

2. यह इस विभाग को दिनांक 18-12-2002 की अधिसूचना सं० 13016/1/97-प्रशि० I के क्रम में जारी किया जा रहा है।

मनोष भटनागर, डैस्क अधिकारी

वित्त एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 23 दिसम्बर 2002

शुद्धि पत्र

सं० 27/2002—इस मंत्रालय को दिनांक 5-12-2002 की अधिसूचना सं० 26/2002 (फा० सं० 29/2/2002-प्रशा०-10 के अन्तर्गत) के तदर्थ में "न्यायमूर्ति श्री के० बंटा-न्याया" के नाम की "न्यायमूर्ति श्री के० बंटास्वामी" पढ़ा जाए।

वी० ए० भारद्वाज, उप सचिव

भारतीय सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्थापना

नई दिल्ली, दिनांक 09 दिसम्बर 2002

सं० 16/2002 फाइल संख्या पी एफ/144/70-प्रशा०-II—इस समय मुद्रण सीमा शुल्क अयुक्त (निवारक), पटना के पद पर तैनात भारतीय सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, ग्रुप "क" (1970 बैच) के एक अधिकारी श्री एन० के० पी० सिन्हा द्वारा किए गए अनुरोध के परिणामस्वरूप उन्हें अपना नाम "श्री कृष्ण" में परिवर्तित करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अब उन्हें "श्री कृष्ण" के नाम से जाना जाएगा।

के० विमगेन, अवर सचिव

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 18 दिसम्बर 2002

सं० 7 फा० सं० ए-39011/2/2002-प्रशा०-VI—राष्ट्रपति, श्री निधिलेख कुमार झा (90061), संयुक्त आकर आयुक्त, दिल्ली, द्वारा दिए गए त्यागपत्र के नोटिस विसे अधिसूचना सं० 5, दिनांक 5 नवम्बर, 2002 के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया था, के वापिस लेने के अनुरोध की स्वीकार करते हैं।

2. अधिसूचना सं० 5, दिनांक 5 नवम्बर, 2002 को रद्द समझा जाए।

पी० सं० भट्ट, अवर सचिव

आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 20 दिसम्बर 2002

सं० ए० 12011/21/2002-प्रशा०-2—राष्ट्रपति, श्री नरेश आत्माराम घाग को 10000-325-15200 रूपए के वेतनमान में दिनांक 27 अगस्त, 2002 के पूर्वान्त से वित्त राज्य मंत्रा (व्यय, बैंकिंग तथा बीमा) (श्री आनंदराम अडसूल) के अवर निजी सचिव नियुक्त करते हैं।

2. श्री नरेश आत्माराम घाग की नियुक्ति, यदि अन्य कारणों से पहले समाप्त नहीं की जाती है, तो वर्तमान वित्त राज्य मंत्रा (व्यय बैंकिंग तथा बीमा) के कार्यकाल के साथ-साथ चलेगा।

ईश्वर चन्द काम्बोज, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 27 दिसम्बर 2002

एफ० सं० 2/18/2002 प्रिका I—राष्ट्रपति, भारत सरकार टकसाल, नोएडा के उप महाप्रबंधक, श्री ए० एम० गुरहा को दिनांक 1-1-2003 के (पूर्वान्त) से 18400-500 22400/- रूपए के वेतनमान में एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक, जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. तदर्थ नियुक्ति अधिकारी को नियमित नियुक्ति अथवा वरिष्ठता के किसी दावे का अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

अपराजिता चौधरी, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

विदेश व्यापार महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 दिसम्बर 2002

शुद्धि पत्र

फा० सं० 6/2135/98-कामिक-1—अधिसूचना संख्या 13/2002 दिनांक 9 अगस्त, 2002 में आंशिक संशोधन करते हुए कुमार दुर्गा एवं रोचोरमानो का नाम कुमारी दूक एवं रोचोरमानो रखा जाए। अन्य शर्तें वही रहेंगी।

अ० कु० म० चाकणकर, संयुक्त मह. निदेशक, विदेश व्यापार

औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 4 नवम्बर 2002

सं० ए-32012/1/2001-सं. ड. एन—राष्ट्रपति, नमक उपायुक्त और भारत नमक सेवा के ग्रेड-2 अधिकारी श्री एम० सुन्दरेसन को पदोन्नति पर 01-10-2002 से अगले

आदेशों तक, रुपये 16,400 450-20,000 के वेतनमान में नमक आयुक्त के कार्यालय में नमक आयुक्त (भारतीय नमक सेवा के ग्रेड-1) के रूप में नियुक्त करते हैं।

जी० एम० सिंह, अवर सचिव

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 10 दिसम्बर 2002

सं० ए-19011/8/99-स्थापना--राष्ट्रपति, श्री अपूर्व चन्द्र, भा० प्र० से० (महाराष्ट्र : 88) को 16 नवम्बर, 2002 के बाद अर्थात् 11 जुलाई, 2004 तक के लिए अथवा जब तक वे मंत्री जी के निजी सचिव के रूप में कार्य करना बंद नहीं करते हैं अथवा अगले आदेशों तक, इसमें जो भी घटना सबसे पहले घटित हो, के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री जी के निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

एस० एस० केमवाल, अवर सचिव

कोयला एवं खान मंत्रालय

(कोयला विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 24 दिसम्बर 2002

सं० 12/9/2002-ए०ए०ओ०--राष्ट्रपति जी द्वारा श्री एम० मदन गोपाल, भा० प्र० से० (कर्नाटक : 84) को दिनांक 23-12-2002 (पूर्वाह्न) से तीन वर्ष की अवधि तक अथवा जब तक कि उनका कार्यकाल कोयला और खान मंत्री के निजी सचिव के रूप में समाप्त न हो जाए अथवा अगले आदेश जारी होने तक, इसमें जो भी पहले हो, की अवधि के लिए कोयला और खान मंत्री (सुश्री उमा भारती) के निजी सचिव के रूप में निदेशक के समतुल्य पद पर नियुक्त किया जाता है। श्री एम० मदन गोपाल की मंत्री जी के निजी सचिव के रूप में नियुक्ति मंत्री जी के कार्यकाल के साथ समाप्त हो जाएगी।

राजीव शर्मा, संयुक्त सचिव

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 26 दिसम्बर 2002

संख्या ए-12011/10/95-प्रशासन--राष्ट्रपति, श्री पद्म कुमार वर्मा, नियमित प्रधान निजी सचिव का 12000-16500 रु० के वेतनमान में वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के पद पर तदर्थ नियुक्ति को 1-1-2003 से 30-6-2003 तक छः महीने का अवधि के लिए या निर्मित पदधारियों के उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, आगे बढ़ाते हैं।

2. श्री पद्म कुमार वर्मा को उक्त तदर्थ नियुक्ति से वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में नियमित नियुक्ति, वरिष्ठता अथवा स्थायिककरण आदि के लिए दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

3. इसकी कार्यात्मक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 19-12-2002 के कार्यालय स.पन संख्या 20/27/98-सी० एस०-II(बालूम-II) के अधीन प्राप्त उनके अनुमोदन से जारी किया जाता है।

एस० के० नाथक, अवर सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110016, दिनांक 13 दिसम्बर 2002

सं० ए-11013/3/1999-प्रशा० (ए)--राष्ट्रपति, इस विभाग के दिनांक 1 नवम्बर, 1999 का समसंख्यक अधिसूचन के अनुक्रम में श्री आर० के० गुप्ता, आई आर एस (आई टा : 84) का 14,300-400-18,300/- रुपये के वेतनमान में माननियमानव संसाधन विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा महानगर विकास मंत्री के वैयक्तिक स्टाफ में निजी सचिव के पद पर 01-11-2002 से 30-04-2003 तक आगामी छः मास का अवधि के लिए तदर्थ प्रतिनिधित्व का अवधि बढ़ाते हैं।

2. वे सामान्य नियमों के अंतर्गत पात्रता के अनुसार अपने ग्रेड में वेतन प्राप्त करेंगे।

सुभाष चन्द्र चावला, उप सचिव

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली-3, दिनांक 19 दिसम्बर 2002

सं० ए-38011/2/2002-पी-II(.)--अधिवर्षितावधि प्राप्त करने के फलस्वरूप पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के श्री पी० बा० जयगुप्त, आईएस, (एजीएमयू टी : 65) सचिव को दिनांक 31 अक्टूबर, 2002 से (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

पी० एस० शर्मा, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 27 दिसम्बर 2002

सं० 12023/8/98-स्था०-5--संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड में उप निदेशक, डा० (श्रीमती) लिल मित्रा को कृषि एवं सहकारिता विभाग में 16-12-2002 के अपराह्न से चार वर्षों तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, प्रतिनियुक्ति के आधार पर 12000-375-16500 रु० के वेतनमान में उपायुक्त (बागवानी) के रूप में नियुक्त करते हैं।

के० डी० उम्रेतो, अवर सचिव

सं० 12023/8/98-स्था०-5—संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति, नारियल विकास बोर्ड, कोच में उप निदेशक श्री एल० शिंदारामा रेड्ड की ह्रासि एवं सहकारिता विभाग में 20-12-2002 के पूर्वाह्न से चार वर्षों तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, प्रतिनियुक्ति के आधार पर 12000-375-16500 रु० के वेतनमान में उपायुक्त (व्यवसाय) के रूप में नियुक्त करते हैं।

के० डी० उप्रेती, अवर सचिव

दिनांक 30 दिसम्बर 2002

सं० 19011/425/2002-स्था० 5—राष्ट्रपति, भारतीय अर्थ सेवा के ए०००००० ए०० स्तर के अधिकारी तथा इस समय कृषि एवं सहकारिता विभाग में उप निदेशक (सहकारिता) के पद पर कार्यरत श्री डा० पी० सिंह को उनकी अधिवर्षिता की आयु पूरी हो जाने पर 31 दिसम्बर, 2002 के अन्तर्गत से सरकारों सेवा से सेवानिवृत्त करते हैं।

के० डी० उप्रेती, अवर सचिव

दिनांक 31 दिसम्बर 2002

सं० 19011/355/2002-स्था०-V—इस विभाग के दिनांक 15-5-2002 का अधिसूचना संख्या 19011/355/2002-स्था०-V के क्रम में, कृषि एवं सहकारिता विभाग के अंतर्गत ऋण प्रभाग में नियमित वरिष्ठ तकनीकी सहायक डा० बी० एल० सारस्वत को इसी विभाग के अंतर्गत तिलहन एवं दलहन प्रौद्योगिकी मिशन में तकनीकी अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि को 11-9-2001 (पूर्वाह्न) से 2-9-2002 तक बढ़ाने के लिए सञ्चालन प्राधिकारों को कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

के० डी० उप्रेती, अवर सचिव

कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 22 नवम्बर 2002

सं० ए-19014/54/2002-स्था०-1—राष्ट्रपति, श्री डी० के० छट्वाल, के० सं० से०, को कार्यात्मक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश संख्या 31/7/2002-ई०ओ (एम० ए००-1), 24 सितम्बर, 2002 के अनुसरण में 1 नवम्बर, 2002 पूर्वाह्न से कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में वैयक्तिक उन्नयन के आधार पर अवर सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

एम० सी० चाँद, अवर सचिव

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 24 दिसम्बर 2002

सं० 16-5/2001-युवा सेवा-III—राष्ट्रपति, श्री अनुराग भट्टाचार्य, भारतीय प्रशासनिक सेवा (असम : 1976) के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अंतर्गत युवाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग में सदस्य-सचिव के रूप में कार्यकाल को 14-9-2003 तक का अवधि अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, सहर्ष बढ़ाते हैं।

श्री अनुराग भट्टाचार्य, भारतीय प्रशासनिक सेवा (असम : 1976) को आयोग में सदस्य-सचिव के रूप में नियुक्ति इस मंत्रालय की दिनांक 3-7-2002 की अधिसूचना के तहत 18,400-500-22,400/- रुपये के वेतनमान में की गई थी।

आर० के० मिश्रा, संयुक्त सचिव

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 29 नवम्बर 2002

सं० ए-19012/1/89-स्था०—सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के अवर सचिव (स्वस्थता), श्री के० ए० कैथ, अवर सचिव, अधिकारिता को आयु प्राप्त कर लेने पर 30 नवम्बर 2002 से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

एल० सी० मेहरा, अवर सचिव

दिनांक 11 दिसम्बर 2002

सं० 12026/2/95-स्था०—राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) के कार्यालय जपन सं० 5/4/2000-ओएल (एस) दिनांक 13-11-2002 के अनुसरण में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में सं० 10,900-15,200 के वेतनमान में श्री पी० डी० भारद्वाज, उप निदेशक (राजभाषा) की तदर्थ पदोन्नति की अवधि को 31 मार्च, 2003 या इस पद की निमित्त आधार भरे की, जो भी पहले हो, तक बढ़ाया जाता है।

2. श्री पी० डी० भारद्वाज, उप निदेशक (राजभाषा) इस पद पर तदर्थ नियुक्ति के कारण उप निदेशक (राजभाषा) के ग्रेड में पदोन्नति के लिए दावा करने के हकदार नहीं होंगे।

एल० सी० मेहरा, अवर सचिव

पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय

(संस्कृति विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 13 दिसम्बर 2002

सं० ए० 12022/5/2001-स्था०—कामिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कामिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, मंत्रिमंडल नियुक्ति समिति सचिवालय के दिनांक 20-11-2002 के आदेश संख्या 4/29/2001-ई० ओ० (एस एम-1) के अनुसरण में श्री आर० सी० मिश्रा, आई० ए० एस० (ओ आर-76) ने 11 दिसम्बर, 2002 पूर्वाह्न से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, संस्कृति विभाग, पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय में अवर महानिदेशक (प्रशासन) के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

कुष्ण चन्द गुप्ता, अवर सचिव

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 20 दिसम्बर 2002

सं० ए० 32013/7/2000 स्था०-II—राष्ट्रपति श्री अब्दुल खरे को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली

में दिनांक 18-12-2002 (पूर्वाह्न) से और आगामी आदेशों तक कार्यकारी अभियंता (सिविल) के पद पर वेतनमान रु० 10000-325-15200 में नियुक्त करते हैं।

भारत भूषण जैन, अवर सचिव

दिनांक 31 दिसम्बर 2002

सं० ए०-32013/7/2002-स्था०-II—राष्ट्रपति, श्री देवेन्द्र तिवारी को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली, में दिनांक 16-12-2002 (पूर्वाह्न) से और आगामी आदेशों तक कार्यकारी अभियंता (सिविल) के पद पर वेतनमान रु० 10000-325-15200 में नियुक्त करते हैं।

भारत भूषण जैन, अवर सचिव

CABINET SECRETARIAT

New Delhi, the 23rd December 2002

No. A-19013/3/2002-Ad. I.—The President is pleased to appoint Shri Raju Sharma, IAS (UP : 82) as Director (Joint Secretary level) in the National Authority, Chemicals Weapons Convention, Cabinet Secretariat with effect from the forenoon of 23rd December, 2002 for a period of five years or until further orders, whichever event takes place earlier.

SUNIL MISHRA, Dy. Secy.

DEPARTMENT OF SPACE

Bangalore-560094, the 19th December 2002

No. 5/1 (2)/2002-I.—Consequent on attaining the age of Superannuation the following Scientists/Engineers in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space have relinquished the charge of the post with effect from the afternoon of 30-11-2002.

Sl. No., Name and Post

Shri/Smt./Kum.

1. K. K. Gowami—Scientist/Engineer-G
2. S. N. Prasad—Scientist/Engineer-SG

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy.

No. 6/1 (2)/2002-I.—Consequent on attaining the age of superannuation D. S. Kushwah, Scientist/Engineer-SF in the Space Applications Centre, Ahmedabad of the Department of Space has relinquished the charge of the post with effect from the afternoon of 30-11-2002.

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy.

No. 7/1 (1)/2002-I.—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/Engineers-SG as Scientists/Engineers-G in the Liquid Propulsion Systems Centre, Valiamala, Thiruvananthapuram of the Department

of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 01-07-2002 and until further orders :

Shri/Smt./Kum.

1. M. Jayaraman
2. F. P. Joshua
3. Lalitha Ramachandran
4. S. Bhagavath Singh

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy.

No. 7/1 (1)/2002-I.—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Officers to the post mentioned against each in the Liquid Propulsion Systems Centre, Valiamala, Thiruvananthapuram of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of the dates mentioned against each until further orders :

Sl. No., Name, Post from which promoted, Post to which promoted and Date of Promotion

Shri/Smt./Kum.

1. K. Surya Prakasa Rao, Purchase Officer, Sr. Purchase Officer—20-04-2002
2. N. Divakaran Nair, Asst. Accounts Officer, Accounts Officer—03-06-2002
3. T. Thomas Mony, Asst. Canteen Manager, Canteen Manager-I—25-07-2002

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy.

No. 7/1 (2)/2002-I.—The President is pleased to appoint the undermentioned persons as Scientists/Engineers-SG in the Liquid Propulsion Systems Centre, Valiamala, Thiruvananthapuram of the Department of Space on temporary capacity with effect from the forenoon of the dates mentioned against each :

Sl. No., Name and Date of appointment

Shri/Smt./Kum.

1. Arun Kumar M. S.—31-07-2002
2. Soumik Sarkhel—02-08-2002
3. Saranala Eswara Rao—12-08-2002
4. Abhilash Narayan—16-09-2002

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy.

No. 7/1 (2)/2002-I.—Consequent on acceptance of Voluntary retirement, the following Officers in the Liquid Propulsion Systems Centre, Valiamala, Thiruvananthapuram of the Department of Space have relinquished the charge of the post with effect from the forenoon of the dates mentioned against each :

Sl. No., Name, Post and Date of Voluntary Retirement

Shri/Smt./Kum.

1. P. Madaswamy Asary, Scientist/Engineer-SE—12-08-2002
2. P. Mohana Prasad, Scientist/Engineer-G—01-10-2002

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy.

No. 7/1 (2)/2002-I.—Consequent on attaining the age of Superannuation the following Officers in the Liquid Propulsion Systems Centre, Valiamala, Thiruvananthapuram of the Department of Space have relinquished the charge of the post with effect from the afternoon of the dates mentioned against each :

Sl. No., Name, Post and Date of relief

Shri/Smt./Kum.

1. K. Peethambaran, Sr. Admn. Officer—30-06-2002
2. P. P. Damodaran, Canteen Manager-I—30-06-2002
3. T. Mathavan, Scientist/Engineer-SG—31-07-2002
4. K. J. Paulose, Scientist/Engineer-SF—31-07-2002
5. K. C. Gopalan Nair, Accounts Officer—31-07-2002
6. P. V. Oonnikrishnan Nair, Scientist/Engineer-SE—31-10-2002
7. K. Sakumaran, Scientist/Engineer-SD—30-11-2002

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy.

The 23rd December 2002

No. 3/1(1)/2002-I.—The President is pleased to appoint on promotion Shri B. R. Rajput, Hindi Officer-I as Hindi Officer-II in the Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 10-10-2002 and until further orders.

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy.

No. 3/1(1)/2002-I.—The President is pleased to appoint Kum. Gomathy. H as Scientist/Engineer-SC in the Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram of the Department of Space in a temporary capacity with effect from the forenoon of 06-11-2002 and until further orders.

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy.

No. 3/1(1)/2002-I.—The President is pleased to appoint on adhoc promotion Shri C.S.C. Bose as Accounts Officer in the Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 28-10-2002 and until further orders..

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy.

No. 3/1(2)/2002-I.—Consequent on acceptance of Voluntary retirement, Dr. K. Subramanian, Scientist/Engineer-SE in the Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram of the Department of Space has relinquished the charge of the post with effect from the forenoon of 02-12-2002.

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy.

No. 3/1 (2)/2002-I.—Consequent on attaining the age of Superannuation the following Scientists/Engineers in the Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram of the Department of Space have relinquished the charge of the post with effect from the afternoon of the 30-11-2002.

Sl. No., Name and Post

Shri/Smt./Kum.

1. S. Ramsunder—Scientist/Engineer-SG
2. K. Suryanarayanan—Scientist/Engineer-SF

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy.

No. 3/1 (2)/2002-I.—The President is pleased to accept the resignation from service of Shri Ayush Jha, Scientist/Engineer-SC in the Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram of the Department of Space with effect from the afternoon of 25-11-2002.

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy.

No. 5/1 (2)/2002-I.—The President is pleased to accept the resignation from service of Shri N. Srinivasa Rao, Scientist/Engineer-SC in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space with effect from the afternoon of 05-12-2002.

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy.

No. 6/1 (2)/2002-I.—Consequent on attaining the age of superannuation Shri N. C. Bhavsar, Scientist/Engineer-G in the Space Applications Centre, Ahmedabad of the Department of Space has relinquished the charge of the post with effect from the afternoon of 30-11-2002.

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy.

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 25th November 2002

No. A-12022 2/2002-Admn. IV.—In pursuance of Ministry of Finance & Company Affairs, Department of Economic Affairs' Order No. 13015/1/2002-IES dated 13-1-2002, Shri S. N. Brahma Choudhary, an officer of NMSG Scale of IES, assumed charge as Director in the Programme Evaluation Organisation (Planning Commission) at New Delhi, w.e.f. the forenoon of 14th November, 2002.

S. A. RAHIM, Under Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 15th November 2002

No. 27011/11/98-PF. II (III).—The President is pleased to appoint Shri G. R. Wadhwa, IAS, Deputy Financial Adviser (Pers.) MHA to hold the full additional charge of the post of IFA, ITBP in addition to his own duties w.e.f. 12-12-2001 till the time the post is filled up on regular basis.

INDEVER PANDEY, Director (PF)

MINISTRY OF PERSONNEL, P. G. & PENSIONS

(DEPTT. OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 26th December 2002

No. 14013/1/2000-AIS. III.—In exercise of the powers conferred by rule 3A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm, in the Indian Administrative Service, the following member of the Indian Administrative Service borne on the State Cadre of Uttar Pradesh with effect from the date shown against him :—

S. No., Name, Batch & Date of Confirmation

1. Sh. Mahavir Yadav, 1989—22-9-1999

R. VAIDYANATHAN, Under Secy.

New Delhi-110067, the 23rd December 2002

No. 13016/1/97-Trg. I.—The President is pleased to continue the appointment of Shri A. Jaikumar Menon, a Private Secretary of CSS in the Ministry of Finance, Department of Company Affairs as Assistant Director (English Shorthand & Typewriting) in the Institute of Secretariat Training and Management, New Delhi, on deputation basis, for a further period of two months w.e.f. 18-11-2002 to 17-01-2003 or, till his substitute joins, whichever is earlier.

2. This issues in continuation of this Department's Notification No. 13016/1/97-Trg. I dated 18-12-2002.

MANISHA BHATNAGAR, Desk Officer

MINISTRY OF FINANCE & COMPANY AFFAIRS (DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 23rd December 2002

CORRIGENDUM

No. 27/2002.—Reference this Ministry's Notification No. 26/2002 (issued from the file F. No. 29/2/2001-Ad. 1C), dated 5-12-2002, the name of "Mr. Justice K. Venkataswamy" may be read as "Mr. Justice K. Venkataswami".

V. P. BHARDWAJ, Dy. Secy.

INDIAN CUSTOMS & CENTRAL EXCISE ESTABLISHMENTS

New Delhi, the 9th December 2002

No. 16/2002(F.No. PF/144/70-AD.II).—Consequent upon a request made by Shri N. K. P. Sinha, an officer of the Indian Customs & Central Excise, Group 'A' (1970 batch) presently posted as Chief Commissioner of Customs (Prev.), Patna is permitted to change his name to 'Shri Krishna'. He will now be known by "Shri Krishna".

K. KIPGEN, Under Secy.

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

New Delhi, the 18th December 2002

No. 7 (F. No. A-39011/2/2002-AD.VI).—The President is pleased to accept the request for withdrawal of notice of resignation tendered by Shri Mithilesh Kumar Jha (90061), Joint Commissioner of Income Tax, Delhi, which was accepted by the Competent Authority vide Notification No. 5 dated 5th November 2002.

2. Notification No. 5 dated 5th November, 2002 stands cancelled.

P. C. BHATT, Under Secy.

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 20th December 2002

No. A-12011/21/2002-Admn.II.—The President is pleased to appoint Shri Naresh Atmaram Ghag as Additional Private Secretary to Minister of State for Finance (Expenditure, Banking & Insurance) (Shri Anandrao Vithoba Absul) w.e.f. the forenoon of 27th August, 2002 in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200.

2. The appointment of Shri Naresh Atmaram Ghag will be on co-terminus basis with the tenure of the present Minister of State for Finance (Expenditure, Banking & Insurance) unless terminated otherwise earlier.

I. C. KAMBOJ, Under Secy.

New Delhi, the 27th December 2002

F. No. 2/18/2002-COIN.I.—The President is pleased to appoint Shri A. M. Goorha, Dy. General Manager of India Noida as General Manager in the India Government Mint, Government Mint, Mumbai in the pay scale of Rs. 18400-500-22400/- w.e.f. 01-1-2003 (F.N.) on adhoc basis for a

period of one year or until the post is filled up on regular basis whichever is earlier.

2. The adhoc appointment will not confer on the officer any right for regular appoint or seniority.

APARSJITA CHOWDHURY, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

(DEPARTMENT OF COMMERCE)

DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE

New Delhi, the 26th December 2002

CORRIGENDUM

No. F. No. 6/2135/98-Pers.1/6966.—In partial modification of Notification No. 13/2002 dated 9th August, 2002 the name of Miss Dudu H. Rochiramani may be read as Miss Duru H. Rochiramani. The other terms remain the same.

A. K. M. CHAKANKAR, Jt. Dir. Genl. of Foreign Trade

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION

New Delhi, the 4th November 2002

No. A-32012/1/2001-CDN.—The President is pleased to appoint on promotion, Shri S. Sundaresan, Deputy Salt Commissioner and an officer of Grade II of the Indian Salt Service as Salt Commissioner (Grade I of the Indian Salt Service) in the Office of the Salt Commissioner, Jaipur, in the scale of Rs. 16,400-450-20,000/- with effect from the 01-10-2002 until further orders.

G. M. SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

New Delhi, the 10th December 2002

No. A-19011/8/99-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Apurva Chandra, IAS (MH : 88) as Private Secretary to Minister of Petroleum & Natural Gas (Shri Ram Naik) beyond 16-11-2002 i.e. upto 11-7-2004 or till he ceases to function as Private Secretary to Minister or until further orders, whichever event occurs the earliest.

S. S. KEMWAL, Under Secy.

MINISTRY OF COAL & MINES

(DEPARTMENT OF COAL)

New Delhi, the 24th December 2002

No. 12/9/2002-ASO.—The President is pleased to appoint Shri M. Madan Gopal, IAS (KN : 84) as Private Secretary to the Minister for Coal & Mines (Sushree Uma Bharti) at the level of Director w.e.f. 23-12-2002 (F/N) for a period of three years, or till he ceases to function as Private Secretary to the Minister for Coal & Mines or until further orders whichever is earliest. The appointment of Shri M. Madan Gopal as Private Secretary to Minister for Coal & Mines will be co-terminus with the tenure of Minister.

RAJIV SHARMA, Jt. Secy.

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION

(DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS)

New Delhi, the 26th December 2002

No. A-12011/10/95-Estt.—The President is pleased to extend the appointment of Shri Pawan Kumar Verma, a regular Principal Private Secretary as Senior Principal Private Secretary in the scale of pay of Rs. 12000-16500/- on ad hoc basis for a further period of six months w.e.f. 1-1-2003 upto 30-6-2003, or till a regular candidate becomes available, or till further orders, whichever is earlier.

2. The above adhoc appointment does not entitle Shri Pawan Kumar Verma to any claim for regular appointment, seniority or confirmation, etc. in the grade of Senior Principal Private Secretary.

3. This issues with the approval of Department of Personnel & Training vide their O.M. No. 20/27/CS.II (Vol. II) dated, 19-12-2002.

S. K. NAYAK, Under Secy.

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY)

New Delhi-110016, the 13th December 2002

No. 11013/3/99-Admn.I(A).—In continuation of this Department's notification of even number dated 1st November, 1999, the President is pleased to extend the term of deputation of Shri R. K. Gupta, IRS (I:84) to the post of Private Secretary in the personal staff of Hon'ble Minister for HRD, Science and Technology and Ocean Development in the pay scale of Rs. 14300-400-18300/- for a further period of six months from 1-11-2002 to 30-4-2003.

2. He will draw his pay etc. in his respective grade as per his entitlement under normal rules.

S. C. CHAWLA, Dy. Secy.

MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

New Delhi-110003, the 19th December 2002

No. A-38011/2/2002-P.II(.).—Consequent upon attaining the age of superannuation Shri P. V. Jayakrishnan, IAS (AG-MUT : 65) Secretary, Ministry of Environment & Forests retired from Government service from the afternoon of 31st October, 2002.

P. S. SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 27th December 2002

No. 12023/8/98-E.V.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. (Mrs.) Lily Mitra, Deputy Director, National Horticulture Board, Gurgaon as Dy. Commissioner (Horticulture) in the pay scale of Rs. 12600-375-16500/- in the Department of Agriculture and Cooperation on deputation basis w.e.f. the afternoon of 16-12-2002 for a period of ordinarily not exceeding four years or until further orders, whichever is earlier.

K. D. UPRETI, Under Secy.

No. 12023/8/98-E.V.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Shri L. Shivarama Reddy, Deputy Director, Coconut Development Board, Kochi as Dy. Commissioner (Horticulture) in the pay scale of Rs. 12000-375-16500/- in the Department of Agriculture and Cooperation on deputation basis w.e.f. the forenoon of 20-12-2002 for a period of ordinarily not exceeding four years or until further orders, whichever is earlier.

K. D. UPRETI, Under Secy.

The 30th December 2002

No. 19011/425/2002-E.V.—Consequent on his attaining the age of superannuation, the President is pleased to retire Shri D. P. Singh, a STS level officer of Indian Economic Service, presently working as Deputy Director (Cooperation) in the Department of Agriculture and Cooperation, from Government Service w.e.f. the afternoon of 31st December, 2002.

K. D. UPRETI, Under Secy.

The 31st December 2002

N. 19011/355/2002-E.V.—In continuation of this Department's Notification No. 19011/355/2.02-E.V. dated 15-5-2002, ex-post-facto approval of the competent authority is hereby accorded to the extension of deputation of Dr. B. L. Sarswat, a regular Senior Technical Assistant of Credit Division under the Department of Agriculture and Cooperation, in the post of Technical Officer in Technology Mission on Oilseeds and Pulses under the same Department with effect from 11-09-2001 (F/N) upto 02-09-2002.

K. D. UPRETI, Under Secy

DEPARTMENT OF AGRICULTURE RESEARCH & EDUCATION

New Delhi, the 22nd November 2002

No. A-19014/54/2002-Estt.—The President is pleased to appoint Shri D. K. Chhatwal, CSS, as Under Secretary on personal upgradation basis in the Department of Agricultural Research & Education w.e.f. the forenoon of November 1, 2002 in pursuance of Department of Personnel & Training Order No. 31/7/2002-EO (MM.I) dated September 24, 2002.

M. C. CHAND, Under Secy

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS & SPORTS

New Delhi, the 24th December 2002

No. 16-5/2001-YS.III.—The President is pleased to extend the tenure of Shri Anurag Bhatnagar, IAS (AM : 1976) as Member Secretary in the National Commission for Youth under Ministry of Youth Affairs & Sports for a period up to 14-09-2003 or until further orders whichever event takes place earlier.

Shri Anurag Bhatnagar, IAS (AM : 1976) was appointed as Member Secretary in the Commission in the pay scale of Rs. 18,400-500-22,400 vide this Ministry's notification dated 03-07-2002.

R. K. MISHRA, Jr. Secy.

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT

New Delhi-110001, the 29th November 2002

No. A-19012/1/89-Estt.—On attaining the age of superannuation, Shri K. S. Kainth, Under Secretary (in Situ) of the CSS cadre of the Ministry of Social Justice and Empowerment, stands retired from the Government service with effect from the afternoon of 30th November, 2002.

L. C. MAHARRA, Under Secy.

The 11th December 2002

No. A-12026/2/95-Estt.—In pursuance of the Department of Official Language (Ministry of Home Affairs) Office Order No. 5/4/2000-OL(S) dated 18-11-2002, the term of ad-hoc promotion of Shri P. D. Bhardwaj, Deputy Director (OL) in the pay scale of Rs. 10000—15200, in the Ministry of Social Justice & Empowerment, is extended upto 31st March 2003 or till the post is filled on regular basis, whichever is earlier.

2. Shri P. D. Bhardwaj, Deputy Director (OL) will not be entitled to any claim for promotion in this grade due to ad-hoc appointment to the post of Deputy Director (OL).

L. C. MAHARRA, Under Secy.

MINISTRY OF TOURISM & CULTURE
(DEPARTMENT OF CULTURE)

New Delhi, the 13th December 2002

No. A.12022/5/2001-Estt.—In pursuance of the Department of Personnel & Training, Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, Secretariat of the Appointments Committee of the Cabinet, Order No. 4/29/2001-EO (SM.I) dated 20th November, 2002, Sh. R. C. Misra, IAS (OR : 76) assumed charge of the post of Additional Director General (Administration), in the Archaeological Survey of India, Department of Culture, Ministry of Tourism & Culture, with effect from the forenoon of 11th December, 2002.

KRISHAN CHAND GUPTA, Under Secy

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS

New Delhi, the 20th December 2002

No. A-32013/7/2000-E.II.—The President is pleased to appoint Shri Akhil Khare as Executive Engineer (Civil) in

the Ministry of Road Transport & Highways, New Delhi in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from 18-12-2002 (F/N) and until further orders.

B. B. JAIN, Under Secy.

The 31st December 2002

No. A-32013/7/2000-E.II.—The President is pleased to appoint Shri Devendra Tiwari as Executive Engineer (Civil) in the Ministry of Road Transport & Highways, New Delhi in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from 16-12-2002 (F/N) and until further orders.

B. B. JAIN, Under Secy.